

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज गोरखपुर दिनांक 20-11-2021

चोरी की मोटरसाईकिल व मोबाईल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा मय हमराह उ0नि0 विध्यांचल शुक्ल, का0 कृष्णकान्त पाठक, का0 अमित कुमार, का0 विनय कुमार पटेल के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, में सोपाई पुल पर दिनांक 19.11.2021 को संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाईकिल से दो बाईक सवार भूमिधर तिराहा की तरफ से आते दिखाई दिये जिन्हे रोका गया तो पीछे मुड़कर भागना चाहे तथा कि लडखडाकर गिर गये, जिन्हे हमराही कर्म0गण की मदद से पकडकर नाम पता पुछा गया तो पहले ने अपना नाम रामा बेल्लदार पुत्र पन्नेलाल बेल्लदार निवासी हरिहरपुर (बरई टोला) थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर, व दूसरे ने अपना नाम प्रवीण कुमार उर्फ गोलू पुत्र चन्द्रभान निवासी बढयापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर बताया जिनकी जामा तलाशी ली गयी तो उक्त मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस को जुलाई 2021 में नौकायन थाना रामगढताल से चोरी करना बताये तथा दोनो के जामा तलाशी से कुल 05 अदद स्मार्ट मोबाईल फोन बरामद हुआ, जिनको सील सर्व मुहर कर फर्द तैयार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2021 धारा 411,413,403 भादवि बनाम 1. रामा बेल्लदार पुत्र पन्नेलाल बेल्लदार निवासी हरिहरपुर (बरई टोला) थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर 2. प्रवीण कुमार उर्फ गोलू पुत्र चन्द्रभान निवासी बढयापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. रामा बेल्लदार पुत्र पन्नेलाल बेल्लदार निवासी हरिहरपुर (बरई टोला) थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
2. प्रवीण कुमार उर्फ गोलू पुत्र चन्द्रभान निवासी बढयापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 163/2021 धारा 411,413,403 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

सोपाई पुल के पास दिनांक 19.11.2021 समय 16.05 बजे।

बरामदगी-

1. एक अदद मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस
2. 05 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0न0 श्री विन्ध्यांचल शुक्ला थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 कृष्णकांत पाठक थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 अमित कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
5. का0 विनय कुमार पटेल थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर